



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 फाल्गुन 1945 (श10)  
(सं0 पटना 198) पटना, सोमवार, 04 मार्च 2024

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना  
4 मार्च 2024

सं० : एम०-02-02/2024-08—बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2024 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 04.03.2024 को जारी अधिसूचना संख्या- 07 दिनांक 04.03.2024 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान परिषद् में भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना संख्या- 322/बिहार-वि.प./2024 (एम.एल.ए.)(1) दिनांक 04.03.2024 तथा रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 322/बिहार-वि.प./2024 (एम.एल.ए.)(2) दिनांक 04.03.2024 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मिथिलेश कुमार साहु,  
संयुक्त सचिव।

## निर्वाचन विभाग

## अधिसूचना

4 मार्च 2024

सं० : एम०-02-02/2024- 07—यतः बिहार राज्य में, राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य की विधान परिषद् के 11 (ग्यारह) सदस्यों के स्थान 06 मई, 2024 को उनकी पदावधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति होने पर रिक्त होने वाले हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति होने की तारीख
1.	खालीद अनवर	06.05.2024
2.	नीतीश कुमार	
3.	प्रेम चन्द्र मिश्रा	
4.	मंगल पांडे	
5.	राबड़ी देवी	
6.	राम चन्द्र पूर्वे	
7.	रामईशबर महतो	
8.	संजय पासवान	
9.	सैयद शहनवाज हुसैन	
10.	संजय कुमार झा	
11.	संतोष कुमार सुमन	

यतः इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार राज्य के राज्यपाल राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए ग्यारह सदस्य निर्वाचित कर दें।

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,  
मिथिलेश कुमार साहु,  
संयुक्त सचिव।

## ELECTION DEPARTMENT

## NOTIFICATION

The 4<sup>th</sup> March 2024

**No. M-02-02/2024-07--**WHEREAS, the seats of 11 (eleven) members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of Legislative Assembly of the State are due to fall vacant on 06<sup>th</sup> May, 2024 on retirement of those members, on the expiration of their term of office as detailed below:

S.No.	Name of Member	Date of Retirement
1.	Khalid Anwar	06.05.2024
2.	Nitish Kumar	
3.	Prem Chandra Mishra	
4.	Mangal Pandey	
5.	Rabri Devi	
6.	Ram Chandra Purve	
7.	Ramaishabar Mahato	
8.	Sanjay Paswan	
9.	Syed Shahnawaz Hussain	
10.	Sanjay Kumar Jha	
11.	Santosh Kumar Suman	

WHEREAS, a Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission, in pursuance of section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is, hereby, pleased to call upon the Members of the Legislative Assembly of the State, to elect eleven members to the Legislative Council of

the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

**By order and in the name of the Governor,  
Mithilesh Kumar Sahu,  
Joint Secretary.**

**भारत निर्वाचन आयोग**

**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक: 04 मार्च, 2024, फाल्गुन 14, 1945 (शक)**

**अधिसूचना**

सं० 322/बिहार-वि.प./2024(एम.एल.ए.)(1)--यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 04 मार्च, 2024 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में विधान परिषद् के लिए ग्यारह सदस्य निर्वाचित कर दें।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अंतिम तारीख                     | - 11 मार्च 2024 (सोमवार)  |
| (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख                   | - 12 मार्च 2024 (मंगलवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख                 | - 14 मार्च 2024 (गुरुवार) |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,         | - 21 मार्च 2024 (गुरुवार) |
| (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | - 23 मार्च 2024 (शनिवार), |
- और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,  
**सुमन कुमार दास,**  
सचिव।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001/ Dated: 04<sup>th</sup> March, 2024  
Phalgun 14, 1945 (Saka)**

**NOTIFICATION**

No. 322/BR-LC/2024 (MLAs) (1): - WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 04<sup>th</sup> March, 2024 been pleased to call upon the members of the Legislative Assembly of the State, to elect eleven members to the Legislative Council of the State: -

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby -

(A) appoints, with respect to the said election -

- (a) the 11<sup>th</sup> March, 2024 (Monday), as the last date for making nominations;

- (b) the 12<sup>th</sup> March, 2024 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 14<sup>th</sup> March, 2024 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21<sup>st</sup> March, 2024 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23<sup>rd</sup> March, 2024 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the State on the date specified above, for the election.

**By order,**  
**SUMAN KUMAR DAS,**  
**SECRETARY.**

### भारत निर्वाचन आयोग

**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक: 04 मार्च, 2024, फाल्गुन 14, 1945 (शक)**

#### अधिसूचना

सं. 322/बिहार-वि.प./2024(एम.एल.ए) (2)--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से तारीख 04 मार्च, 2024 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एद्तद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

#### सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	श्री असीम कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना

आदेश से,  
**सुमन कुमार दास,**  
सचिव।

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001/ Dated: 04<sup>th</sup> March, 2024**  
**Phalguna 14, 1945 (Saka)**

#### NOTIFICATION

No. 322/BR-LC/2024 (MLAs) (2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Bihar, hereby: -

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and

- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Legislative Council of the State of Bihar, by the members of Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Governor's notification published in the official Gazette of the State on 04<sup>th</sup> March, 2024: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
1.	2.
Sh. Raj Kumar, Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna	Sh. Asim Kumar, Director, Bihar Legislative Assembly, Patna

By order,  
SUMAN KUMAR DAS,  
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 198-571+50-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>